

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 1982/चैत्र 3, 1904  
No. 107] NEW DELHI WEDNESDAY, MARCH 24, 1982/CHAITRA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 मार्च 1982

का०आ० 165(अ) - दिनांक 30 नवम्बर 1981 के भारत का राजपत्र (असाधारण) सं० 529 में मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण) अधिनियम 1978 की धारा 21(1)(ख) के अन्तर्गत प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं का आणित रूप में संशोधित करने हुए, यहाँ यह अधिसूचित किया जाता है कि उचित अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट 'नब्बे दिन' की अवधि को एक से पचास दिन बढ़ा जाये और हमेशा ऐसा पढ़ा गया माना जाये।

अधिसूचना सं०

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1 मा० आ० 837(ड) | 4 मा० आ० 940(ड) |
| 2 मा० आ० 938(ड) | 5 मा० आ० 941(ड) |
| 3 मा० आ० 839(ड) | 6 मा० आ० 942(ड) |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 7. सां. प्रां. 843(ङ)  | 14. सां. प्रां. 850(ङ) |
| 8. सां. प्रां. 844(ङ)  | 15. सां. प्रां. 851(ङ) |
| 9. सां. प्रां. 845(ङ)  | 16. सां. प्रां. 852(ङ) |
| 10. सां. प्रां. 846(ङ) | 17. सां. प्रां. 853(ङ) |
| 11. सां. प्रां. 847(ङ) | 18. सां. प्रां. 854(ङ) |
| 12. सां. प्रां. 848(ङ) | 19. सां. प्रां. 855(ङ) |
| 13. सां. प्रां. 849(ङ) | 20. सां. प्रां. 856(ङ) |

[केस नं. 81/एम टी पी/सी/एल ए/81]

हिम्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड  
पदेन संयुक्त सचिव,  
भारत सरकार, रेल मंत्रालय

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
(Railway Board)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24 March, 1982

**S.O. 165(E).**—In partial modification of the following Notifications published under Section 21(1)(b) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978, in the Gazette of India (Extraordinary) No. 529 dated 30th November, 1981, it is hereby notified that the period of 'ninety days' mentioned in the said notifications shall be read, and shall be deemed always to have been read as 'one hundred and fifty days'.

**Notification Nos.**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. S.O. 837(E)  | 11. S.O. 847(L) |
| 2. S.O. 838(E)  | 12. S.O. 848(E) |
| 3. S.O. 839(E)  | 13. S.O. 849(E) |
| 4. S.O. 840(E)  | 14. S.O. 850(E) |
| 5. S.O. 841(E)  | 15. S.O. 851(E) |
| 6. S.O. 842(E)  | 16. S.O. 852(E) |
| 7. S.O. 843(E)  | 17. S.O. 853(E) |
| 8. S.O. 844(E)  | 18. S.O. 854(E) |
| 9. S.O. 845(E)  | 19. S.O. 855(E) |
| 10. S.O. 846(E) | 20. S.O. 856(E) |

[Case No. 81/MTP/C/LA/81]

HIMMAT SINGH,  
Secy. Railway Board  
&  
Ex-Officio Jt. Secy.  
to the Government of India  
Ministry of Railways.